



दस्तक अभियान

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 तक प्रदेश में **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों** की मृत्यु दर और रुग्णता को दूर करने के लिये आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का एक पैकेज देने के एक दृष्टिकोण के रूप में 'दस्तक अभियान' चलाया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान को **न्यूट्रीशन इंटरनेशनल** द्वारा समर्थन दिया गया है, जो एक वैश्विक पोषण संगठन है तथा जरूरतमंद लोगों को कम लागत, उच्च प्रभाव वाले पोषण हस्तक्षेप प्रदान करने पर केंद्रित है।
- न्यूट्रीशन इंटरनेशनल सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के नियोजन एवं रणनीति निर्माण, अभिविन्यास, नगिरानी, समीक्षा और विकास में अभियान का समर्थन करता रहा है।
- राज्य के स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में **दस्तक अभियान** का उद्देश्य एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की मदद से कुपोषित बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान करना और उनका प्रबंधन करना तथा पाँच साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ प्रदान करना है।
- फ्रंटलाइन कार्यकर्ता पाँच साल तक के बच्चों वाले परिवारों की पहचान करने के लिये घर-घर दस्तक देते हैं और डायरिया, गंभीर एनीमिया, गंभीर तीव्र कुपोषण तथा कोवडि-19 जैसी बीमारियों के लिये उनकी जाँच करते हैं।
- किसी भी प्रकार के कुपोषण या बीमारी का पता चलने पर उनके रेफरल और उपचार की व्यवस्था की जाती है। दस्तक अभियान के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता एनीमिया की रोकथाम के लिये आयरन और फोलिक एसिड सरिप, डायरिया के प्रबंधन के लिये ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) पैकेट और ज़कि की गोलीयाँ भी वितरित करते हैं तथा बच्चों को विटामिन ए की खुराक प्रदान करते हैं।